



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित)

(ISO 9001:2015 Certified)

No: 1:05:138:I:CS

Dated: 29.10.2018

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI – 400 051.	Bombay Stock Exchange Limited, Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001

SUB: Intimation pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Sir/Madam,

In continuation of our letter dt. 17th October, 2018 and 22nd October, 2018, and in terms of Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform that the Board of Directors of Power Finance Corporation Ltd. (PFC) in its meeting scheduled to be held on Friday, November 2, 2018 will, inter-alia consider a proposal for revision in limits for raising of resources i.e. Market Borrowing program for the Financial Year 2018-19 through issuance of bonds, term loans, Capital Gain Bonds, Commercial Paper etc. from domestic & international markets.

The funds will actually be raised from time to time during the Financial Year 2018-19, with the approval of competent authority as per powers delegated in this regard, by the Board of Directors in the said meeting.

This is submitted for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Power Finance Corporation Ltd.


(Manohar Balwani)
Company Secretary
mb@pfcindia.com